



नकली कीटनाशक बनाने का कारखाना पकड़ा

Publish Date: Wed, 18 Sep 2019 06:23 AM (IST)

जिला कृषि विभाग की टीम ने अवैध रूप से कीटनाशक व उर्वरक बनाने की फैक्ट्री पकड़ी संवाद सूत्रछपार रामपुर गांव में भारी मात्रा में अवैध रूप से

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। क्षेत्र के गांव रामपुर में निकली कीटनाशक और उर्वरक बनाने का कारखाना पकड़ा गया है। कृषि रक्षा अधिकारी ने करीब 550 पैकेट और बैग बरामद किए गए हैं। गोदाम और जब्त की गई सामग्री को सील किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाने में तहरीर दी गई है। आरोपी ब्रांडेड कंपनी के रैपर लगाकर पैकिंग करते थे।

कृषि रक्षा अधिकारी पवन कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सूचना मिली कि रामपुर गांव में बड़े पैमाने पर नकली खाद और कीटनाशक तैयार किया जाता है। विभागीय टीम और स्थानीय पुलिस को साथ लेकर गांव में स्थित एक घर में छापा मारा। घर के बाहर दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर जाकर देखा तो नकली खाद और उर्वरक बनाने का बड़े पैमाने पर कार्य होने के प्रमाण मिले। मौके पर कोई आरोपी नहीं मिला, लेकिन खाद और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर जखीरा मिला है। 300 बोरे विभिन्न प्रकार के खाद, 250 पैकेट कीटनाशक और 100 बोरे जिक के मिले हैं। सभी को कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही गोदाम को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गोदाम को ढांसरी निवासी प्रवीण ने किराए पर ले रखा था। प्रवीण से फोन पर बात की गई तो बताया कि वह किसी कार्य से हरिद्वार गया हुआ है, आने में समय लगेगा। इसके बाद उसने फोन बंद कर लिया। आरोपित के विरुद्ध थाने में तहरीर दे दी गई है।

उन्होंने बताया कि जिन ब्रांडेड कंपनियों के कीटनाशक और खाद के रैपर मिले हैं, उनके प्रतिनिधियों को सूचना दी गई है, ताकि वह मौके पर आकर पहचान कर लें। रैपर कहां से आए, इसका पता जांच के बाद ही लग सकेगा।

काफी समय से बना रहे थे नकली कीटनाशक

स्थानीय लोगों ने बताया कि नकली खाद बनाने का गोरखधंधा काफी समय से चल रहा था। काफी दुकानदार यहीं से खाद और कीटनाशक ले जाते थे। इससे साफ है कि दुकानदार को पता होते हुए भी यहां से काफी कम दामों में खाद और कीटनाशक खरीदकर ऊंचे दामों में किसानों को बेचते थे। कृषि उप निदेशक जसवीर सिंह तेवतिया का कहना है कि नकली खाद और कीटनाशक बनाने की जानकारी मिलते ही उन्होंने कृषि रक्षा अधिकारी को मौके पर भेजा था। विभागीय जांच भी शुरू की गई है, बड़ा राजफाश हो सकता है।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/muzaffarnagar-fake-fertilizer-factory-traced-19588144.html>